

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 564]

नवा रायपुर, बुधवार, दिनांक 23 जुलाई 2025 — श्रावण 1, शक 1947

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 16 जुलाई 2025

अधिसूचना

क्रमांक LAND-667/2025-HOUSING/32.— राज्य शासन एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 23—क (1) के खण्ड (क) के अंतर्गत राजनांदगांव विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2031 में अत्यावश्यक लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुए सूचना दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में एक दिन प्रकाशित की गई थी:—

राजनांदगांव विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2031 में उपांतरण

क्र.	ग्राम	खसरा कमांक	कुल रकबा	राजनांदगांव विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2031 अनुसार भू-उपयोग	अधिनियम की धारा 23—क के तहत उपांतरण
1.	नंदई	907 / 1	0.8050 हेक्टेयर	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	मिश्रित भू उपयोग
		907 / 2	0.162 हेक्टेयर	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	
		907 / 3	0.235 हेक्टेयर	वर्तमान आवासीय	
		907 / 4	0.4860 हेक्टेयर	वर्तमान आवासीय सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	
2.	राजनांदगांव	126	0.336 हेक्टेयर	वर्तमान आवासीय	
कुल रकबा			2.024 हेक्टेयर		

- उक्त उपांतरण छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की रिडेव्हलपमेंट योजनांतर्गत आवासीय तथा सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक से मिश्रित भू-उपयोग किए जाने हेतु।
- सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।
- अतः राज्य शासन एतद् द्वारा राजनांदगांव विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2031 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है। उक्त उपांतरण राजनांदगांव विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2031 का अंगीकृत भाग होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवेन्द्र भारद्वाज, विशेष सचिव.